




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 548]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 1981/अग्राहायण 17, 1903

No. 548]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 1981/AGRAHAYANA 17, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वैयक्तिक विभाग)

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1981

का०सा० 891(अ).—केंद्रीय सरकार, लक्ष्मीरतन एण्ड एवर्टन
बेस्ट काटन मिल (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1976 (1976 का 98)
की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
इससे उपाबद्ध अनुसूची में उन अपवादों, निर्बन्धनों और भर्त्ताओं को
चिनिदिष्ट करती है जिनके अधीन रहते हुए, कम्पनी अधिनियम, 1956
(1956 का 1) लक्ष्मीरतन काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड और एवर्टन
बेस्ट कम्पनी लिमिटेड को उसी प्रकार लागू होता रहेगा जिस प्रकार कि
वह उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व उसे लागू होता था।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अपवाद, निर्बन्धन और भर्त्ताओं
जिनके अधीन रहते हुए स्तम्भ (1) में
वर्णित उपबन्ध उपक्रम को लागू होंगे।

(1)

(2)

धारा 210 (1) कम्पनियों के तुलन पत्र तथा लाभ और
हानि लेखे वाणिज्य साधारण अधिवेशन
के समक्ष नहीं रखे जाएंगे। अन्य शब्दों
में कम्पनियों के तुलन पत्र तथा लाभ
और हानि लेखे प्रायः किहित समय
के भीतर तैयार हो किए जाएंगे किन्तु उन्हें

(1)

(2)

वार्षिक साधारण अधिवेशन के समक्ष
रखा जाना अपेक्षित नहीं है। कम्पनियों
कागुनी विवरणियाँ और तुलनपत्र कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 159(1)
के उपबन्धों को प्रभावी नहीं करेंगी।

धारा 219

कम्पनियाँ सभी तक विधिमान्य रहेंगी जब
तक कि वे लक्ष्मीरतन एण्ड एवर्टन बेस्ट
काटन मिल्स (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम,
1976 के अधीन शासित हों।

धारा 224

इस शर्त के अधीन रहते हुए कि संपरीक्षक
सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

धारा 227

इस शर्त के अधीन रहते हुए कि संपरीक्षक
सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

धारा 228

कम्पनियाँ सभी तक विधिमान्य रहेंगी जब
तक कि वे लक्ष्मीरतन एण्ड एवर्टन बेस्ट
काटन मिल्स (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम,
1976 के अधीन शासित हों।

[का० सं० 10/3/75-सीएसएम]

डी० के० शुंगू, संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF COMMERCE

(Deptt. of Textiles)

New Delhi, the 3rd December, 1981

S.O. 891(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Laxmirattan and Atherton West Cotton Mills (Taking over of Management) Act, 1976 (98 of 1976), the Central Government hereby specifies in the Schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the Laxmirattan Cotton Mills Company Limited and the Atherton West and Company Limited in the same manner as it applied thereto before the commencement of the said Act.

SCHEDULE

Provision of the companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking.
(1)	(2)
Section 210(1)	Balance and Profit and Loss Accounts of the Companies shall not be placed before the Annual General Meeting. In other words the Companies will have to prepare Balance Sheet and Profit and Loss accounts as usual within the prescribed time but are not

(1)	(2)
	required to place the same before the Annual General Meeting. The Companies will file the statutory returns and balance sheets with the Registrar of Companies. The exemption shall not affect. The provisions of Section 159(1) of Companies Act, 1956.
Section 219	Valid till the Companies are governed under the Laxmirattan and Atherton West Cotton Mills (Take over of Management) Act, 1976.
Section 224	Subject to the condition that the auditors shall be appointed by the Government.
Section 227	Subject to the condition that the auditors shall be appointed by the Government.
Section 228	Valid till the Companies are governed under the Laxmirattan and Atherton West Cotton Mills (Take over of Management) Act, 1976.

[F. No. 10/3/75-CSM]

V. K. SHUNGLU, Jt. Secy.